



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

मुख्यालय, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110 002

मुख्यालय की वेबसाइट : <http://esic.nic.in>

निविदा सूचना

आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति के लिए दर संविदा

क.रा.बी. निगम द्वारा सु-स्थापित तथा प्रतिष्ठित औषधीय फर्मों से आयुर्वेदिक औषधियों की दर संविदा चलाने के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। दर संविदा की वैधता दर संविदा को अंतिम रूप देने की तारीख से दो वर्ष तक होगी। पूरे देश में क.रा.बी. संस्थानों को औषधियों की आपूर्ति की जानी है। निविदा जमा करने से पहले निविदाकर्ता सुनिश्चित करें कि वे निविदा दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट सभी पात्रता मानदण्ड तथा निबंधन और शर्तें पूरी करते हों। निबंधन और शर्तों के साथ निविदा दस्तावेज क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

निबंधन और शर्तों सहित निविदा दस्तावेज 30.08.2011 तक किसी भी कार्यदिवस में पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक तथा अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक भारतीय चिकित्सा पद्धति कक्ष, कमरा संख्या 315, तृतीय तल, क.रा.बी. निगम मुख्यालय, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 से "महानिदेशक, क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹ 500/- (पांच सौ रुपये) की अप्रतिदेय राशि का भुगतान कर प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा दस्तावेज क.रा.बी. निगम की वेबसाइट <http://esic.nic.in> से डाउनलोड किए जा सकते हैं तथा उपर्युक्त उल्लेखानुसार निविदा शुल्क के रूप में ₹ 500/- (पांच सौ रुपये) के डिमांड ड्राफ्ट सहित जमा किए जा सकते हैं। प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से निविदा दस्तावेज प्राप्त करने का इरादा रखने वाली फर्मों को प्राधिकार पत्र सहित प्रार्थना पत्र भेजना होगा। डाक द्वारा निविदा दस्तावेज प्राप्त करने का इरादा रखने वाली फर्मों को ₹ 500/- के डिमांड ड्राफ्ट सहित प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से उप चिकित्सा आयुक्त (भा.चि.प.) को इस प्रकार भेजना होगा कि यह उन तक 24.08.2011 को या इससे पहले पहुँच जाए। आवागमन अथवा अन्यथा में किसी विलंब अथवा निविदा फॉर्म के खो जाने के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज अहस्तांतरणीय है। क.रा.बी. निगम दर संविदा में सहभागिता के लिए क.रा.बी. निगम द्वारा विवर्जित की गई फर्मों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। महानिदेशक को पूरी निविदा अथवा इसके किसी भाग को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार है।

विधिवत पूर्ण निविदा फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1 लाख रुपये (एक लाख रुपये) की बयाना राशि जमा सहित कमरा सं. 315, तृतीय तल, क.रा.बी. निगम मुख्यालय, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 में रखी निविदा पेटी में 01.09.2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे या इससे पहले डाला जाए। निविदाएँ (लिफाफा "ए" - तकनीकी बोली) समिति कक्ष, पाँचवा तल, क.रा.बी. निगम मुख्यालय, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 में फर्म से प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकार पत्र रखने वाले औषधीय फर्मों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 01.09.2011 को पूर्वाह्न 11.30 बजे खोली जाएंगी। यदि निविदाएँ खोलने की तारीख सार्वजनिक अवकाश घोषित की जाती है तो निविदाएँ अगले कार्य दिवस को उसी स्थल तथा समय पर खोली जाएंगी।

हस्ता/-

उप चिकित्सा आयुक्त (भा.चि.प.)

सामाजिक न्याय हेतु सामाजिक सुरक्षा